

July 16, 2024

To:

DCS-CRD BSE Limited

First Floor, New Trade Wing

Rotunda Building,

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023

Stock Code: 533229

To:

Listing Compliance

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex

Bandra East, Mumbai 400 051

**Stock Code: BAJAJCON** 

Dear Sir/Madam,

#### <u>Sub: Newspaper clippings - 18<sup>th</sup> Annual General Meeting and information on E-voting and other related information</u>

In continuation of our letter dated July 15, 2024, regarding the eighteenth (18<sup>th</sup>) Annual General Meeting ("AGM") of the Company and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find attached Public Notice of 18<sup>th</sup> AGM of the Company published on today, i.e. July 16, 2024, in the following newspapers:

Financial Express – All editions Jansatta (All editions) Dainik Navjyoti (Udaipur)

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Yours Sincerely,

For Bajaj Consumer Care Limited

Vivek Mishra

**Head-Legal & Company Secretary** 

Membership No.: A21901

Encl: as above



# 14 FINANCIAL EXPRESS

# VOITH

**VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED** Regd. Off.: 113/114-A, Sector-24, Faridabad -121005, Haryana CIN: L74899HR1968PLC004895

Phone: +91 129 4292200; Fax: +91 129 2232072 E-mail: voithfabrics.faridabad@voith.com Website: http://www.voithpaperfabricsindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS UNDER SECTION 124(6) OF THE COMPANIES ACT, 2013 FOR TRANSFER OF SHARES TO IEPF AUTHORITY

Members of the company are hereby informed that all shares in respect of which dividends have remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority), in accordance with the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with provisions of IEPF Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, (IEPF Rules), in this regard. In pursuance of said Rules, Company has already transferred relevant shares in earlier years to the designated demat account of IEPF Authority, details whereof are available on the website of the Company. Further, another lot of shares are due to be transferred to IEPF Authority and details whereof are being made available under "Investor Relations" sub-link, under main link of "Investors Corner" on the website of the Company www.voithpaperfabricsindia.com.

It may also be noted by all concerned that upon completion of requisite Corporate Action procedure and transfer of such shares to IEPF Authority, the old certificates shall automatically stand cancelled and would be rendered non-negotiable.

In adherence to the requirements of said IEPF Rules, Company has already sent individual communication to all concerned shareholders at their respective address registered with the Company, for taking appropriate actions to avoid their shares from being so transferred. In case no communication is received by the Company from concerned shareholder in this regard by 31st July, 2024, the Company shall take suitable steps to transfer such shares to the demat account of IEPF Authority in due course.

Once these dividend/shares are transferred to the IEPF by the Company, such dividend/shares may be reclaimed by the concerned shareholder only from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforesaid Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and Rules, they may contact the Company Secretary at Tel: +91 1294292 200 or by sending a letter at the registered office of the company or by writing an email at: investorcare.vffa@voith.com.

For Voith Paper Fabrics India Limited

Place: Faridabad Date: 13/07/2024

C. S. Guglian Company Secretary FCS No.: 430

## baja consumer care

#### **BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED**

CIN - L01110RJ2006PLC047173 Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur 313 001, Raiasthan Tel No. +91 294 2561631 Email Id. complianceofficer@bajajconsumer.com

Website: www.bajajconsumercare.com

#### NOTICE OF THE 18th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting" of the Company is scheduled on Friday, August 9, 2024 at 10:30 A.M. at The Fern Residency, Plot No.1, Madhu Nursery Compound, Hiren Magri Sector 3. Near Sevashram Flyover, Udaipur 313001, Rajasthan, to transact the business as set out in the Notice of the AGM of Company Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the

Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings and other applicable provisions, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 have been sent through, electronic mode via e-mails to those Members whose e-mail ids are registered with the Company Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant(s) or RTA as on July 12, 2024 at their respective registered postal addresses vide the permitted mode. The dispatch of the Annual Reports was completed on July 15, 2024. The aforesaid documents are also hosted on the website of the Company viz. www.bajajconsumercare.com and website of the Stock Exchanges, i.e. viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ("KFINTECH") at www.evoting.kfintech.com.

In case, Members wish to get a physical copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24, they may send a request to the Company at 3" Floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovind Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 or send an e-mail a annualreport@bajajconsumer.com by quoting their DP ID and Client ID or Folio Number and the Company will send the same free of cost.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is providing to its Members with a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") The Company has engaged the service of KFINTECH for providing e-voting services through e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being August 2, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or

The remote e-voting period commences on Monday, August 5, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and concludes on Thursday, August 8, 2024 at 5:00 P.M. (IST) During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFINTECH upon expiry of the aforesaid period. Details of the process and manner of remote evoting are furnished in the said Notice.

Please read carefully the instructions and information relating to e-voting, furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through e

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com and also refer to the voting instructions on the KFINTECH website. However, a person who is already registered on the CDSL/NSDL e-voting platform, he can use his existing User-Id and Password. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

Pursuant to provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility for voting by way of polling papers/ballot papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote. If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote evoting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. S.N. Viswanathan, Practicing Company Secretary (Membership No.: A 61955; Certificate of Practice No.: 24335) failing him Ms. Malati Kumar, Practising Company Secretary, (Membership No.: A 15508; Certificate of Practice No.: 10980), as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on poll instead of himself. A proxy need not be a member of the Company The Proxy Form duly completed, stamped and signed should reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the AGM. The details with respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in the

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.kfintech.com or address the same to Mr. PSRCH Murthy, Sr. Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or call on toll free no.: 1 800-309-4001 or send a request at evoting@kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer book of the Company will remain closed from Friday, August 2, 2024 to Friday, August 9, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 18" Annual General Meeting of the Company.

Date : July 15, 2024 Place: Mumbai

By order of the Board of Directors Sd/ Vivek Mishra

Head-Legal & Company Secretary Membership No.: A21901





Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051 Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com

NOTICE

Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced						
SL. NO	FOLIO NO.	NAME	CERTIFICATE NOs.	SHARES	DISTINCTIVE Nos.	
1	DIL0904323	Renu Sharma	75022 85354 91301	1000 1000 1000	37241291-37242290 603005495-603006494 607014305-607015304	
2 D 0000020 Dandiya Chandra Kanta 2274-2277* 40* 10596597-1059663 85527 400 603139415-6031398 91428 400 607130489-6071308						
3 DIL0041618 Nitaben P Thakker Pravinbhai M Thakkar Nitaben P Thakker Pravinbhai M Thakkar Nitaben P Thakker Pravinbhai M Thakkar Nitaben P Thakker Nitaben Nitabe						
*shares of FV Rs. 10 each						

· Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 28.07.2024, indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the issue of said letter of confirmation, through an affidavit duly attested.

2. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

3. The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 28.07.2024 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

For DABUR INDIA LIMITED New Delhi (AKJAIN) 15.07.2024 E.V.P.(Finance) & Company Secretary

# zensar

An **RPG** Company

# Zensar Technologies Limited

Registered Office: Zensar Knowledge Park, Plot # 4, MIDC, Kharadi, Off Nagar Road, Pune - 411014 Ph: 020-66057500 Fax No.: 020-66057888 E-mail: investor@zensar.com Website: www.zensar.com CIN: L72200PN1963PLC012621

#### NOTICE

Notice is hereby given that the 61" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Zensar Technologies Limited ("Company") will be held on Friday, August 09, 2024, at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended, read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 09/2023 dated September 25,2023 and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated October 7, 2023 (hereinafter collectively referred to as Circular(s).

the Company for FY 2023-24 along with the Notice of AGM has been sent to all Members of the Company electronically, whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) and/or the Company and/or the Register and Share Transfer Agent (RTA). These documents are also available on following website(s), at www.zensar.com, NSDL: https://www.evoting.nsdl.com, BSE Limited: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com.

In compliance with the aforesaid Circular(s), electronic copies of the Integrated Annual Report of

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standards on General meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically ("remote e-Voting") as well e-Voting at AGM, through e-Voting services of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com in respect of all the business(es) to be transacted at the AGM.

#### Key instructions for remote e-Voting and e-Voting during AGM:

- Members may attend the 61" AGM through VC/OAVM following the instructions as mentioned
- · Detailed procedure and instructions for casting vote using e-Voting system of NSDL, by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses, forms part of the Notice.
- The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-Voting. The facility for voting through electronic means shall also be provided at the AGM. Those Members, who are present at the AGM through VC/OAVM facility and have not already cast their votes on the resolutions via remote e-Voting shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM. The Members, who have cast their vote by remote e-Voting prior to AGM, can attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, August 02, 2024 (cut-off date). Person(s) whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM.
- The remote e-Voting period commences on Tuesday, August 06, 2024, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, August 08, 2024, at 5:00 p.m. (IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is sent through e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e., Friday, August 02, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-Voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or call on or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".
- In case of any queries, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at the designated e-mail ID: evoting@nsdl.co.in.

Members of the Company who have not registered/updated their email address can register/update the same as per the following procedure:

# Physical Holding

Contact Company's RTA, KFin Technologies Limited by sending an email at einward.ris@kfintech.com along with request letter, Folio No., name of shareholder, and scanned copy of the share certificate (front and back), PAN Card (self-attested scanned copy), Aadhar Card (self-attested scanned copy), mobile number and email ID.

Register/ update the details in your demat account, as per the process advised

#### Demat Holding

Place: Pune

Date: July, 15, 2024

by your respective Depository Participant.

The Board of Directors has appointed Sridhar Mudaliar (FCS 6156), and failing him, Ms. Sheetal Joshi (FCS 10480), Partners, SVD & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-Voting process (remote e-voting before the meeting and e-voting during the meeting) in a fair and transparent manner.

Members may note that the Board of Directors of the Company at their Meeting held on April 25, 2024, has recommended a final dividend of INR 7.00 (350%) per equity share of INR 2.00 each for FY 2023-24. The Record Date for the said purpose has been fixed as Friday, July 19, 2024. The final dividend once approved, by the Members at the ensuing AGM, will be credited/dispatched within 30 days from the date of declaration to all Shareholders holding shares in physical or electronic mode as on the record date.

To encourage Green Initiative, Members are also requested to register their bank details with Company's RTA/the respective Depository Participant to receive the dividends, when declared by the Company, directly into their bank account through approved electronic mode of payment.

For Zensar Technologies Limited





Tender No.: RailTel/Tender/OT/ER/HQ/ 2024-25/1539, Dated: 15.07.2024 RailTel/ER invites e-bids from eligible bidders for the work of "Renovation, Modification and Interior work a 8th Floor, New Koilaghat Building, 14 Strand Road, Kolkata - 700001 for setting up of Network Operation Centre for RailTel Corporation of India Limited, Eastern

Detailed Tender Notice/ Tender Document is available on https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in and https://railtel.enivida.com, All future Addendum/ Corrigendum etc. will be uploaded on Raiffel website CPP Pertal and eNivida Portal. Bidders have to submi heir bids on eNivida Portal only.

## "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INFIBEAM AVENUES

**RELIANCE** 

A RELIANCE CAPITAL COMPANY

**RELIANCE FINANCIAL LIMITED** Registered Office: 11th Floor, R - Tech IT Park, Nirlon Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400063 • CIN: U65990MH2005PLC155675 Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2024 Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

(₹ in thousands except per share data)

Quarter Ended Year Ended

		Quartor	Liidea	Tour Endou
r. o.	Particulars	June 30, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
٠.		Unauditated	Unauditated	Auditated
П	Total Income from Operations	40,949	36,082	157,944
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	21,561	22,070	84,722
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21,561	22,070	84,722
1	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13,483	21,670	39,239
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,483	21,670	39,072
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 10/-Each)	241,579	241,579	241,579
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	793,735	762,686	780,253
3	Securities Premium Account	368,421	368,421	368,421
9	Net worth (Equity)	1,032,851	1,001,967	1,019,369
0	Outstanding Debt	65,695	77,309	65,615
1	Outstanding Redeemable Preference Shares	130	130	130
2	Debt Equity Ratio	0.06	0.08	0.06
3	Earnings per share on Equity Shares of ₹ 10/-each (for continuing & discountinuing operations)  1. Bascis	0.56	0.90	1.62
	2. Diluted	0.56	0.90	1.62
4	Capital Redemption Reserve	-	-	
5	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
6	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
7	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter ended financial results are available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and the Company's website i.e. http://reliancefinancial.co.in/ For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Discloure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited and can

3. There were no exceptional or extraordinary items For and on behalf of the Board of Directors of RELIANCE FINANCIAL LIMITED

Lav Chaturvedi Date: July, 15, 2024 DIN: 02859336

#### **INFIBEAM AVENUES LIMITED**

be accessed on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

[CIN: L64203GJ2010PLC061366] Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C,

Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar - 382 355, Gujarat Tel: +91 79 67772204: Fax: +91 79 67772205 Email: ir@ia.ooo: Website: www.ia.ooo

Place: Mumbai

NOTICE OF 14™ ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND FINAL DIVIDEND

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited ('the Company') will be held on Wednesday, August 14, 2024 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 2/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022; Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Securities and Exchange Board of India (SEBI). In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2023-

24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories unless any Member has requested for a physical copy of the same by writing to the Company at ir@ia.ooo. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the website of the Company at www.ia.ooo, websites of the Stock Exchanges i.e. the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of the AGM.

The Company will provide the facility of remote e-voting prior to the meeting as well as e-voting during the meeting to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting will be available in the Notice of the AGM.

In case of a Member whose e-mail address is not registered / updated with the Company/ RTA

/ Depository Participant(s) ("DP"), please follow the following steps to register the email

address for obtaining Annual Report along with AGM notice of the Company and login details for e-voting: a) For members holding shares in Physical mode - please provide necessary details like

- Folio No., Name of shareholder by email to <u>ir@ia.ooo</u> or by duly filed in E-communication Registration form available on the website of the Company i.e. www.ia.ooo.
- b) Members holding shares in demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

#### **Payment of Final Dividend**

Members may note that the Board of Directors in its meeting held on May 16, 2024 have recommended a Final Dividend of Rs. 0.05/- per Equity Share of Re. 1/- each (i.e. 5%) for the Financial Year ended on March 31, 2024, subject to the approval of Shareholders at the ensuing AGM. The Record date for the purpose of Final Dividend for the Financial Year 2023-24 is August 07, 2024. On approval, the dividend subject to deduction of tax at source will be paid on or before September 12, 2024 to the members whose name appear on the Company's Register of Members as on the Record Date through various modes. To avoid delay in receiving the dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held

Members whose shareholding is in electronic mode are requested to notify any change in address or bank account details to their respective depository participant(s). Members whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time in line with the Circulars. We urge the Members to utilize the ECS for receiving dividends.

in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account.

Members may note that pursuant to Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 at the time of making the payment of final dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit the relevant documents provided on the website of the Company at https://www.ia.ooo/advice-to-shareholders via email on infibeamdividend@ia.ooo on or before August 07, 2024. In case of further clarifications on the subject, members are requested to email on infibeamdividend@ia.ooo.

#### Manner of registering mandate for receiving Dividend:

The Members are requested to note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 3, 2021 (subsequently amended by Circular Nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 and SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated November 17, 2023) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and

Members holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are requested to register the email and other KYC details with their depositories through their depository

Members holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit form ISR-1 (available for download at <a href="https://www.ia.ooo/advice-to-shareholders">https://www.ia.ooo/advice-to-shareholders</a>) to update their email, bank account details and other KYC details with the Company's RTA. You

24, Notice, instructions for remote e-voting, instructions for participation in the AGM through VC/OAVM and receive the electronic credit of dividend into their bank account.

**Shyamal Trivedi** 

Sr. Vice President & Company Secretary

financialexp.epapr.in

Place: Gandhinagar

**Date:** July 15, 2024

specimen signature.

are requested to email the duly filled in form to rta@alankit.com and ir@ia.ooo. This will enable the members to receive electronic copies of the Annual Report for FY 2023-

The Notice of the AGM of the Company will be sent to the Shareholders holding shares as on cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course. For, Infibeam Avenues Limited

Sd/-

एसबीआई एलएचओ मोपाल आवेदन आमंत्रित करता है। 1) मोपाल सर्कल के अंतर्गत रिथत बैंक शाखाओं/परिसरों में फायर एक्सटिनग्यूशर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव के लिए विक्रेताओं का पैनल बनाना। और २) एलएचओ भवन, भोपाल हियत फायर हाइड्रेंट सिस्टम के प्रस्तावित सुधार के लिए विक्रेताओं की पूर्व-योग्यता।

इस संबंध में पात्रता मानदंड, नियम और शर्ते, आवेदन प्रारूप और अन्य विवरण/आवश्यकता वाले विस्तृत दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in से प्रोक्योरमेंट न्यूज के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस कार्यालय में आवेदन जमा करने की अतिम तिथि ०५.०८.२०२४ होगी। एसबीआई के पास किसी भी अथवा सभी आवेदन पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

सहायक महाप्रबंधक (परिसर एवं सम्पदा)

#### √ YES BANK यस बैंक लिभिटेड

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताकृज पूर्व, मुंबई-400055

#### सीआईएन : एल65190एमएच2003पीएलसी 143249, ई-मेल : communications@yesbank.in, वैबसाइट : www.yesbank.in अधिग्रहण सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें यहां इसमें नीचे तालिका में वर्णित संबंधित ऋणकर्ताओं को को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत संबंधित सूचनाओं में आंकेत राशियों का 60 दिवसों की एकावधि के अंदर प्रतिभृगतान करने को कहा गया था। संबंधित ऋणकर्तागण उक्त राशियों का प्रतिभगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सुचित

किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। संबंधित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्तियों क

लेन-देन न करें तथा इन संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इस में निम्न तालिका में अंकित संबंधित राशि तथा इस राशि पर संविदागत दर पर नियत ब्याज हेत् यस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

1. मैसर्स जयपुरिया ब्रदर्स ट्रांसइलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) 2. श्री राजेंद्र कुमार जैन (सह—ऋणकर्ता) 3. श्री मेहुल जैन (सह—ऋणकर्ता) 4. श्रीमती सुशीला देवी जैन (सह—ऋणकर्ता तथा बंधककर्ता)	जा की तिशि
द्रांसइलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट अंश, संपूर्ण तहतल, भू तथा प्रथम तल, लिमटेड (ऋणकर्ता)  2. श्री राजेंद्र कुमार जैन (सह—ऋणकर्ता)  3. श्री मेहुल जैन (सह—ऋणकर्ता)  4. श्रीमती सुशीला देवी जैन (सह—ऋणकर्ता)  4. श्रीमती तथा बंधककर्ता)  4. श्रीमती तथा बंधककर्ता)	: अधिग्रहण भी तिथि
2. श्री राजेंद्र कुमार जैन         के साथ, दिल्ली कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग         सात सौ छियालीस तथा         पेचानबे पैसे मात्र)         3. श्री मेहुल जैन (सह—ऋणकर्ता)       शिवत नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110052       23 अप्रैल, 2024         4. श्रीमती सुशीला देवी जैन         में स्थित। सीमायें :— पूर्व— भूखंड सं. सी—64,       के अनुसार देय         पश्चिम— भूखंड सं. सी—62, उत्तर— 30'	-04-2024
सड़क, <b>दक्षिण</b> — 15'6 सड़क।	-07-2024

कृपया नोट करें कि अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत यदि सार्वजनिक नीलामी / विक्रय की सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय लागतों, शुल्कों एवं हमारे द्वारा वहनकृत व्ययों के साथ बकाया राशियों का हमें भुगतान कर दिया जाता है तो विक्रय का संचालन नहीं किया जायेगा तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जायेगा तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण अथवा विक्रयार्थ कोई भी भावी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थान : दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक: 10-07-2024

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CONSECUTIVE INVESTMENTS AND TRADING COMPANY LIMITED

# यस बैंक लिमिटेड

Corporate Identification Number: L67120WB1982PLC035452; Registered Office: 23, Ganesh Chandra Avenue, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal, 700013, India; Contact Number: 033-22114457; Website: www.consecutiveinvestment.com;

Email Address: Info@consecutiveinvestment.com; Open Offer for acquisition of up to 20,81,950 Offer Shares representing 26.00% of the Expanded Voting Capital of Consecutive Investments and Trading Company Limited, the Target Company, at an Offer Price of Rs. 20.007-per Equity Share, payable in cash, to the Public Shareholders of the Target Company, by Mis Birford Enterprises Private Limited, the Acquirer, pursuant to and in compliance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer (Manager'), on behalf of the Acquirer, in connection with the Offer made by the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Post-Offer Public Announcement').

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, January 31, 2024 (Public Announcement), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, February 01, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Friday, February 02: 2024, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition), and Duranti Barata (Bengali daily) Kolkata Edition ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Monday, February 05, 2024 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations (Draft Letter of Offer), (d) Letter of Offer dated Wednesday, June 19, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer"), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Tuesday, June 25, 2024, and published in the Newspapers on Wednesday, June 26, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company"), and (f) Pre-Offer Public Announcement which was approved on Wednesday,

The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company, Pre-Offer Public Announcement, and this Post-Offer Public Announcement, are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents' issued by the Manager on behalf of the Acquirer and the Persons Acting in Concert.

June 26, 2024, and published in the Newspapers on Thursday June 27, 2024 ("Pre-Offer Public Announcement").

1.	Name of the Target Company	number 1.6	7120WB19829	PLC035452',	with its regist	d bearing corpo ered office loo	cated at 23,
2.	Name of the Acquirer and PAGs	Ganesh Chandra Avenue, 3rd Floor, Kolkata - 700013, West Bengal, India  M/s Birford Enterprises Private Limited, Company incorporated on Saturday, January 30, 2021, under the provisions of the Companies Act, 2013, bearing Company identification number 'U51909GJ2021PTC119847*, having its registered office located at 3rd Floor, Chinubhal House, 7-B Annut Bag Colony, Opp Stadium, NR Hindu Colony, Navrangpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.  There are no persons acting in concert with the Acquirer for the purpose of this Offer.					
3.	Name of Manager to the Offer		res and Secur		11.0	or me purpose	OI DIE CHR
4.	Name of Registrar to the Offer		agistry (India)				
5.	Offer Details	Pulva State	egeory (muss).	Livera Frinte	u .		
5.1	Date of Opening of the Offer	Friday, June	28 2024				
5.2	Date of Closing of the Offer		uly 11, 2024				
6.	Date of Payment of Consideration	The schedul has been no	e date for sett	he Public Shar		024. However, e said Open Of	
7.	Details of the Acquisition	ui oonaacii	ARET SETTON TON	parou.			
-	Particulars		sed in the Of g full accepta			Actua	
7.1	Offer Price	01 0	Rs.20.0	0/-	- 1	Rs.20.0	00/-
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered		20,81,9			Nil	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted		20,81,9	50		Not Appli	cable
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)		Rs.4,16,39,0	161		Not Appli	cable
7.5	Shareholding of the Acquirer before	Agreements	Public Anno	uncement			
a) .	Number of Equity Shares		NI	90	- 6	Nil	Security
b)	% of total Expanded Voting Share Capital		Not Applic	able		Not Appli	cable
7.6	Equity Shares acquired by way of O	ffer	TO SOUTH THE TAIL			9000	
a) b)	Number of Equity Shares % of total Expanded Voting		20,81,9			Not Applicable	
7.7	Share Capital  Equity Shares acquired after the De (In pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer	dated Monda		2024, the Targ	et Company	has the follow	ving Equit
	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting	dated Monda		00	et Company	19,35,0 Rs.20.0 24,16	100
7.7 a) b)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share. Capital	dated Monda ntial Issue)	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs. 20.0	00	et Company	19,35,0 Rs.20.0	100
7.7 a) b) c)	Equity Shares acquired after the De (In pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferent Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired	dated Monda ntial Issue)	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs 20.0 24.165	00 0/- 6	et Company	19,35,0 Rs.20.0 24,16	100 10/- %
7.7 a) b)	Equity Shares acquired after the De (In pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting	dated Monda ntial Issue)	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs. 20.0	00 0/- 6	et Company	19,35,0 Rs.20.0	100 10/- %
7.7 a) b) c) 7.8 a)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferent Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting Share Capital	dated Monda ntial Issue)	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs 20.0 24, 165 40, 16,9 50, 165	00 0/- 6 50		19,35,000 24,16% 19,35,000 24,16%	100 10/- %
7.7 a) b) c) 7.8 a)	Equity Shares acquired after the De (In pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting	dated Monda ntial Issue) uirer ing of the Put	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs. 20.0 24.165 40, 16,9 50.165 opised in the	00 0/- 6 50 ders (other the Offer Docur	nan of the Acc	19,35,000 24,16% 19,35,000 24,16%	000 00/- %
7.7 a) b) c) 7.8 a)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferent Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting Share Capital	dated Monda ntial Issue) uirer ing of the Pul Pr (Assu Pre-Offer	y, March 04, 2 19, 35,0 Rs. 20.0 24.165 40, 16,9 50.165 opised in the ming full acc	50 ders (other the Offer Document of the Pre-Offer	nan of the Acc nent is Offer)	19,35,000 24,16% 19,35,000 24,16% Quirer) Actual	ls Post-Offic
7.7 a) b) c) 7.8 a)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferent Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting Share Capital	dated Monda ntial Issue) uirer ing of the Put Pr (Assu	y, March 04, 2  19, 35,0  Rs. 20.0  24.165  40, 16,9  50.165  blic Shareholi oposed in the ming full acc  Pre-Offer (Considering post- allotment of Preferential Issue of Equity Shares and without considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter and promoter group' category of the Target	ders (other the offer Docureptance in the Pre-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves, from the 'promoter and promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity	nan of the Acc nent is Offer)	19,35,000 Rs.20.0 24.16%  19,35,000 24,16%  Quirer)  Actual  Pre-Offer (Considering post- allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves from the promoter and promoter group' category of the Target Company,	Post-Offe (Considering post- alliotnent Preferenti Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoter declassifithemselve from the promoter a promoter a promoter a group' category of the Targe Company
7.7 a) b) c) 7.8 a) b)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferen Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting Share Capital Pre-Offer and Post-Offer sharehold  Pre-Offer and Post-Offer sharehold	dated Monda ntial Issue)  uirer  ing of the Put  Pre-Offer (Without considering Preferential Issue of Equity Shares, and without considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter and promote	y, March 04, 2  19, 35,0  Rs. 20.0  24, 165  40, 16,9  50.165  olic Shareholic oposed in the ming full accomposed in the legity Shares and without considering that, the Promoters declassify themselves from the promoter and promoter and promoter and promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity Shares	ders (other the offer Docure ptance in the Pre-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity Shares)	nan of the Active is Offer)  Post-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity Shares)	19,35,000 Rs.20.0 24.16%  19,35,000 24.16%  Pre-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves from the promoter and promoter an	Post-Offic (Considering post- allotrent Preferenting Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoter apromoter apro
7.7 a) b) c) 7.8 a) b)	Equity Shares acquired after the De (in pursuance of Board Resolution Shares to the Acquirer vide Preferer Number of Equity Shares acquired Price of the Equity Shares acquired % of total Expanded Voting Share Capital Post-Offer shareholding of the Acquired Number of Equity Shares % of total Expanded Voting Share Capital Pre-Offer and Post-Offer sharehold	dated Monda ntial Issue)  uirer  ing of the Put  Pr (Assu  Pre-Offer (Without considering Preferential Issue of Equity Shares, and without considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity	y, March 04, 2  19, 35,0  Rs. 20.0  24.165  40, 16,9  50.165  blic Shareholioposed in the ming full acc  Pre-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares and without considering that, the Promoters declassify themselves from the 'promoter and promoter and promoter and promoter category of the Target Company, and sell their	ders (other the offer Docureptance in the Pre-Offer (Considering post-allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves, from the 'promoter and promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity	nan of the Active to The Activ	19,35,000 24,16%  19,35,000 24,16%  Quirer)  Actual  Pre-Offer (Considering post- allotment of Preferential Issue of Equity Shares, and considering that, the Promoters declassify themselves from the promoter and promoter and promoter group' category of the Target Company, and sell their Equity	Post-Off (Consider post- allotment Preferent Issue of Equity Shares, a consider that, the Promoter declass themselves from the promoter promoter group category the Targ Compar and sell the Equity Equity

specified under SEBI (SAST) Regulations.

9. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.

10. The capitalized terms used in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer, unless otherwise specified

#### ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

#### **SWARAJ**

Swaraj Shares and Securities Private Limited Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621

Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee

Contact Number: +91-22-69649999 Email Address: takeover@swarajshares.com

Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com SEBI Registration Number: INM00012980

Validity: Permanent Date: Monday, July 15, 2024

Place: Mumbai

On Behalf of the Acquirer Birford Enterprises Private Limited

#### हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, इरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नं. : 1800 212 8800, ई-मेल : customer.care@herohfl.com वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | सीआईएन : U65192DL2016PLC30148

माँग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

सम्पर्क पता : बिल्डिंग नं. 7, 2सरा तल, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057

("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत। जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एवं नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही यहाँ नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी एकल या एक साथ दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के रूप में सन्दर्भित) को नीचे दिये गये विवरणों के सम्बन्धित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सम्बन्धित मांग सूचना∕ओं में उल्लिखित राशियों का भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित तिथि पर विस्तृत माँग सूचना जारी की है। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा सर्व की गयी हैं और वे अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से

सम्बन्धित प्रति सामान्य कार्य घण्टों के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा क्रियान्वित ऋण अनुबन्ध एवं अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित नीचे कॉलम (घ) में उल्लिखित सम्बन्धित तिथियों से भुगतान तथा/अथवा वसुली की तिथि तक नीचे वर्णित भावी ब्याज सहित अपने नामों के सम्मख नीचे सचित राशियों का सम्बन्धित सचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित प्रतिभृत आस्ति(याँ) क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा एचएचएफएल के पास बंधक रखी गयी हैं।

•			
ऋण	विधिक उत्तराधिकारी	निम्नलिखित	माँग सूचना
खाता सं.	((यों)∕विधिक	तिथि तक कुल	की तिथि
20	प्रतिनिधि(यों) के नाम	बकाया देय रु.*	एनपीए की तिथि
HHFKRNLAP22000024960	राजरानी के विधिक	रु. 4,81,065/- तिथि	
	उत्तराधिकारी, संदीप कुमार	08 जुलाई, 2024 तक	04 जून, 2024

प्रतिभृत संपत्तियों/चल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण:- मकान संख्या 3424, गली संख्या 1, भट्ट मोहल्ला, शिव कॉलोनी करनाल, हरियाणा - 132001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है (श्रीमती राज रानी हस्तांतरण विलेख दिनांक 11/12/2017 दस्तावेज संख्या 8764 के आधार पर 120 वर्ग गज (मकान का 4/5 हिस्सा) के क्षेत्र की मालिक बन जाती हैं और उत्तराधिकार के माध्यम से शेष 30 वर्ग गज (1/5 हिस्सा) की मालिक हैं, जो स्वर्गीय श्री महिपाल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 05/06/1986 दस्तावेज संख्या 1290 के आधार पर मकान संख्या 3424 के मालिक हैं)।

\*तथा उपर्युक्त सम्बन्धित मांग सूचना में अधिक रपष्ट वर्णित के अनुसार भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकरिमक व्यय, लागतें, भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपचियत प्रभार आदि। यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे, तो एचएचएफएल लागतों तथा परिणामों के लिए कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही

कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो वह अधिनियम के तहत प्रावधानित जेल तथा/जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा तिथि : 16 जुलाई, 2024 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान : करनाल

# Dajaj CONSUMER CARE

#### **BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED**

CIN - L01110RJ2006PLC047173 Read. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha Udaipur 313 001, Rajasthan Tel No. +91 294 2561631 Email Id. complianceofficer@bajajconsumer.com Website: www.bajajconsumercare.com

#### NOTICE OF THE 18" ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the Company is scheduled on Friday, August 9, 2024 at 10:30 A.M. at The Fern Residency, Plot No.1, Madhu Nursery Compound, Hiren Magri Sector 3, Near Sevashram Flyover, Udaipur 313001, Rajasthan, to transact the business as set out in the Notice of the AGM of Company.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings and other applicable provisions, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 have been sent through, electronic mode via e-mails to those Members whose e-mail ids are registered with the Company, Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and physical copies to those members whose e-mail ids are not registered with the Depository Participant(s) or RTA as on July 12, 2024 at their respective registered postal addresses vide the permitted mode. The dispatch of the Annual Reports was completed on July 15, 2024. The aforesaid documents are also hosted on the website of the Company viz. www.bajajconsumercare.com and website of the Stock Exchanges, i.e. viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ("KFINTECH") at www.evoting.kfintech.com.

In case, Members wish to get a physical copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24, they may send a request to the Company at 3" Floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovind Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 or send an e-mail at annualreport@bajajconsumer.com by quoting their DP ID and Client ID or Folio Number and the Company will send the same free of cost.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is providing to its Members with a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the service of KFINTECH for providing e-voting services through e-voting platform.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being August 2, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Monday, August 5, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and concludes on Thursday, August 8, 2024 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFINTECH upon expiry of the aforesaid period. Details of the process and manner of remote evoting are furnished in the said Notice.

Please read carefully the instructions and information relating to e-voting, furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through e-

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com and also refer to the voting instructions on the KFINTECH website. However, a person who is already registered on the CDSL/NSDL e-voting platform, he can use his existing User-Id and Password. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

Pursuant to provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM, The Company is also offering facility for voting by way of polling papers/ballot papers at the AGM for the Members attending ne meeting, who have not cast their vote by remote e-voting. However, Member who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote. If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote evoting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. S.N. Viswanathan, Practicing Company Secretary (Membership No.: A 61955; Certificate of Practice No.: 24335) failing him Ms. Malati Kumar, Practising Company Secretary, (Membership No.: A 15508; Certificate of Practice No.: 10980), as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on poll instead of himself. A proxy need not be a member of the Company. The Proxy Form duly completed, stamped and signed should reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the AGM. The details with respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in the Notice of the AGM.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.kfintech.com or address the same to Mr. PSRCH Murthy, Sr. Manager, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or call on toll free no.: 1-800-309-4001 or send a request at evoting@kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer book of the Company will remain closed from Friday, August 2, 2024 to Friday, August 9, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 18" Annual General Meeting of the

Date : July 15, 2024 Place: Mumbai

By order of the Board of Directors Vivek Mishra

Head-Legal & Company Secretary

Membership No.: A21901 Dala GROUP

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक क्षेत्रीय कार्यालय ५६६, मलिक चौक, इन्द्रा नगर,

शुद्धिपत्र

इमारे अंतिम बिक्री नोटिस दिनांक 19.06.2024, पेपर प्रकाशन दिनांक 20.06.2024 और इस बिक्री प्रकाशन दिनांक 05.07.2024 के अंतिम शुद्धिपत्र के संबंध में आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है। जहां ई–नीलामी की तारीख ।थिगित कर दी गई। अपरिहाय परिस्थितियों के कारण दिनांक 05.07.2024 की ई—नीलामी जिसे बाद में 10.07 2024 (अंतिम शुद्धिपत्र के अनुसार) के लिए स्थगित कर दिया गया था, अब और स्थगित कर दी गई है और अब ई—नीलामी की तिथि 19.07.2024 निर्धारित की गई है नीलामी के अन्य विवरण और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिनांकः 15.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी, स्थानः देष्ठरादून इण्डियन ओबरसीज़ बैंक

#### रेलटेल (सीआईएन सं: U64202DL2000G0l107905)

मिविदा संख्या : रेलटेल/रेंडर/ओटी/ईआर/एचक्यु/ 2024-25/1539, fignies: 15.07.2024 रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र ''रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिय लिमिटेड, पूर्वी क्षेत्र के लिए नेटवर्क संचालन केंद्र की रथापना हेतु 8वीं मंजित, न्यू कोइलाघाट बिल्डिंग, 14 स्ट्रैंड रोड, कोसकाता – 700001 में नवीनीकरण, संशोधन और आंतरिक कार्य''' के कार्य हेतु पात्र बोसीदाताओं शे ई-बोलियां आर्गतित करता है।

विरुत्त निविदा सूचना / निविदा दरतावेज https:// www.railtel.in, https://eprocure.gov.in sitz https://railtel.enivida.com ਧਾਰ ਤਧਾਰਾਵਾਂ है। ਸਰਿਚਧ ਕੇ सभी परिक्षिण्ट/शुद्धिपत्र आदि को रेसटेस सेबसाइट सींपीपी पोर्टल और ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया गाएगा। बोलीदाताओं को केवल ई-निविदा पोर्टल पर अपनी बोली जमा करूनी होगी।

# इंडियन बैंक 🔉 Indian Bank

डिजिटलीकरण कक्ष, परिवर्तन प्रबंधन कार्यालय, कॉपॅरिट कार्यालय, चेन्ने इंडियन बैंक, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का एक

अग्रणी बैंक है, निम्नलिखित में अभिरूचि रखता है: कॉपोरेट क्रेडिट यात्रा के डिजिटलीकरण

हेतु डेटा एनलिटिकल क्षमताओं के उन्नत स्तर के साथ व्यापक डेटा सूचना सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट डेटा एग्रीगेशन हेतु सेवा प्रदाता का चयन

इच्छुक पार्टियां बैंक की वेबसाइट: https://www.indianbank.in/HI/tenders और जीईएम (GeM) पोर्टल को देखें।

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26" वांपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसरण में। कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में

प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

कॉन्टिनेटल कन्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U19202DL2006PTC146489) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 110, दुर्गा चेन्बर्स. 1333 डी.वी. गुप्ता रोडद्व करोल बाग, दिल्ली, 110085 इंडिया में स्थित है

आम जनता को यह संघना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के तमझ कंपनी अधिनियम, 2013 की वारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताय करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में रथानांतरित करने के लिए तारीख 08 जून, 2024 को आयोजित प्रसाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेजम ऑफ एसोसिशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण ने यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायर दर्ज कर सकता है या एक शवर्ष पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उत्लिखित हों के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सुधना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडिल दीनदयाल अल्योदय बवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी व उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी

कृते आवेदक की ओर से विथि : 16.07,2024 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01049160



सुमीत सिंह

निदेशक

#### सूचना

श्री नीरज माखीजा पता: आर-13-61 राज नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201002 द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक की शाखा सी-77, आरडीसी, राजनगर गाजियाबाद यूपी-201001 स्थित शाखा में किराये पर लिया गया लॉकर पिछले 7 साल से निष्क्रिय है

श्री नीरज माखीजा को इससे पहले भेजे गए सभी 3 पत्र जिनमें उनसे लॉकर को संचालित करने का निवेदन किया गया था, वापस लौट आए हैं और उपरोक्त व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया जा सकता।

अतः इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर इस सूचना के बावजूद इस सचना को जारी किए जाने की तिथि के 90 दिनों के भीतर श्री नीरज माखीजा द्वारा उक्त लॉकर का संचालन नहीं किया जाता है तो बैंक की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार उक्त लॉकर [दिनांक] 16 अक्टूबर 2024 को 12 बजे के आस-पास तोड़ कर खोल दिया जाएगा।



#### सूचना

श्री संजय कुमार त्यागी पता: 181 कमला नेहरू नगर-गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201002 द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक की शाखा सी-77, आरडीसी, राजनगर गाजियाबाद यूपी-201001 स्थित शाखा में किराये पर लिया गया लॉकर पिछले 3 वर्षों से किराया बकाया है।

श्री संजय कुमार त्यागी को इससे पहले भेजे गए सभी 3 पत्र जिनमें उनसे लॉकर को संचालित करने का निवेदन किया गया था. वापस लौट आए हैं और उपरोक्त व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया जा सकता।

अतः इस माध्यम से सुचित किया जाता है कि अगर इस सूचना के बावजूद इस सूचना को जारी किए जाने की तिथि के 90 दिनों के भीतर श्री **संजय कुमार त्यागी** द्वारा उक्त लॉकर का संचालन नहीं किया जाता है तो बैंक की मौजुदा प्रक्रिया के अनुसार उक्त लॉकर [दिनांक] 16 अक्टूबर 2024 को 12 बजे के आस-पास तोड़ कर खोल दिया जाएगा।

## RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED CIN No:- L74899DL1984PLC019097

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 Phones: 91-11-46800600, 46800700. Fax No: 91-11-46800692 E-mail: cs@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

#### कम्पनी के इक्वीटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को ट्रान्सफर करने के लिए सार्वजनिक सूचना

सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा–परीक्षा, अंतरण एवं वापसी) विनियम, 2016 ('विनियम') के नियम ६ और बाद के संशोधनों के अनुसार, यह आवश्यक है कि कम्पनी के इक्विटी शेयर जिनके पिछले लगातार 7 (सात) वर्षों या अधिक के लाभाशों का भुगतान / दाया नहीं किया गया जन्हें कम्पनी निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि ("आईईपीएफ") प्राधिकरण के डीमैट खाते में ट्रान्सफर

जिन शेयरबारकों के शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में ट्रान्सफर किए जाएंगे, कम्पनी उनके नवीनतम पंजीकृत पत्राचार और / या ई–मेल पते पर व्यक्तिगत सूचना (वास्तविक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसी भी रिपति हो) भेज बुकी है। साथ ही, ऐसे शेयरधारकों के सभी आवश्यक दिवरण, जैसे कि, नाम, फोलियो नंबर या डीपी आईडी – क्लाइंट आईडी और 'आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेंट खाते' में टान्सफर किए जाने वाले इक्विटी शेयर के विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com पर 'इन्वेस्टर्स रिलेशस' सेक्शन में दिए गए हैं।

सभी संबंधित शेयरधारक, जिनके लगातार सात वर्षों से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लामांश का मूगतान या दावा नहीं किया गया, उन्हें सलाह दी जाती है कि कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर टान्सफर एजेंट ("आरटीए") केंफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से 26 अक्टबर, 2024 या पहले लाभांश का दावा कर दें और यह दावा न करने पर कथित लामांश संबंधित इविवटी शेयर "आईईपीएफ प्राधिकरण के ढीमेंट खाते" में ट्रान्सफर कर दिए जाएंगे। इसलिए संबंधित शेयरधारकों से निवंदन है कि कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट पर देख कर आईईपीएफ प्राधिकरण में ट्रान्सफर होने वाले इकिटी शेयरों के दावा / भुगतान न किए गए लामांशों और शेयरों के विवरणों का सत्यापन कर लें।

उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि 26 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार एजेंट केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड, को निम्नलिखित दस्तावेज भेजकर दावारहित लाभांश का तुरंत दावा करें ताकि आईईपीएफ प्राधिकरण को अपने शेयरों के ट्रान्सफर से बचा जा सके।

वचन पत्र, संलंग प्रारूप में, विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित,

• पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी;

रद किए गए चेक की कॉपी;

यदि ऐसे शेयरधारक 26 अक्टूबर, 2024 तक दावारहित लामांश का दावा नहीं करते हैं, तो कम्पनी इसके बाद शेयरधारक को कोई सूचना दिए बिना उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए लामांश एव इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में ट्रान्सफर कर देगी। कृपया यह भी ध्यान रखें कि कथित नियमों के अनुसार आईईपीएफ को ट्रान्सफर किये गये इक्विटी शेयर / दावारहित लामांश के लिए कम्पनी पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे शेयरों के सभी संवित लाम भी कथित अधिनियम एवं इसके तहत बने नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को ट्रान्सफर कर दिए जाएंगे, जैसे. लाभांश, बोनस शेयर, स्प्लिट, कन्सॉलिडेशन, फ्रेंक्शन शेयर आदि, राइट्स इश्यू छोड़ कर।

भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले ऐसे शेयरधारक यह ध्यान रखें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के ट्रान्सफर के उद्देश्य से मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले ढुप्लिकंट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और यह जारी करने के उपरांत कंपनी दुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट में बदलने के लिए कॉर्पोरेट प्रक्रिया से डिपॉजिटरी को सुचित करेगी जिसके बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों का ट्रान्सफर होगा। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो संबंधित शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, अपने—आप रद हो जाएंगे और किसी विनिमय के लिए अयोग्य माने जाएंगे।

डीमैंट खाते में इक्विटी शेयर रखने वाले ऐसे शेयरधारक यह ध्यान रखें कि कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में इविवटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट प्रक्रिया से डिपॉजिटरी को

इसके अतिरिक्त, कम्पनी हारा इन इक्विटी शेयरों के आईईपीएफ प्राधिकरण में ट्रान्सफर के बाद, संबंधित शेयरधारक केवल आईईपीएफ प्राधिकरण के समक्ष इक्विटी शेयरों का दावा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसकी वास्तविक कॉपी भी विधिवत हस्ताक्षर कर फॉर्म आईईपीएफ–5 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ कम्पनी के नोंडल अधिकारी, अर्थात, श्री. अंकित जैन, कम्पनी सचिव एवं नियम अनुपालन अधिकारी को उनके निम्नलिखित संपर्क पते पर भेजनी होगी। आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित इक्विटी शेयर / लाभांश वापस प्राप्त करने का दावा करने के लिए आवश्यक आवेदन फॉर्म कॉपॉरेट मामला वालय ("एमसीए") के नियम और आवेदन प्रपत्र (आईईपीएफ-5 का ई-फॉर्म) आईईपीएप प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध हैं।

यदि शेयरधारक को इस विषय में कछ भी पछना हो तो कम्पनी/कम्पनी के आरटीए केफिन

कम्पनी का नाम और पता	रजिस्ट्रार का नाम और पता
रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड अग्रवाल सिटी स्कवॉयर, प्लॉट नं. 10, मंगलम पैलेस, बिस्ट्रिक्ट सेंटर सेक्टर 3, रोडिणी दिल्ली-110085 दूरभाष संख्या: 011-46800600 ई-मेल: cs@relaxofootwear.com	केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड यूनिट रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड, सलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, ग्लॉट नं 31-32 गाफीबावली फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा हैदराबाद-500032 टोल फी नंबर 1800-4258-998 दूरभाष सं.: 040-67162222 ई—मेल: einward.ris@kfintech.com

निदेशकों के मंडल के आदेशानुसार रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के लिए अंकित जैन

कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी/नोडल अधिकारी

#### तलवलकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना सीआईएनः L92411MH2003PLC140134 पंजीकृत कार्यालयः 801, महालक्ष्मी चेम्बर्स, 22 भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई - 400 026 (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत संपत्ति की बिक्री)

एतद्वारा आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, मुंबई, कोर्ट- IV (एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी/एनसीएलटी) द्वारा दिनांक 28.04.2022 के आदेश के तहत (परिसमापन आदेश) नियुक्त तलवलकर्स बेटर वैल्यु फिटनेस लिमिटेड (टीबीवीएफएल/कॉपोरेंट देनदार) परिसमापनाधीन के अधोहस्ताक्षरी

(ए) सबसे पहले, एक चालू व्यवसाय के रूप में; (**बी**) विकल्प (ए) के विफल होने की स्थिति में, कॉपोर्रेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा बनने वाली

तिथि: 15 जुलाई, 2024

स्थानः दिल्ली

कॉपोरेंट देनदार की समृद्धि बिल्डिंग, प्रथम तल प्लॉट नंबर 5, मिनर्वा लेआउट, सीटीएस नंबर 551/2, गांव नाहुर, मदन मालवीय रोड, मुलुंड पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र-400080 (परिसर) में स्थित संपत्ति की स्वतंत्र बिक्री (सी) विकल्प (ए) के विफल होने की स्थिति में, कॉपोर्रेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा बनने वाले जिम

उपकरण/संयंत्र और मशीनरी की स्वतंत्र बिक्री के माध्यम से के स्वामित्व तथा परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाली चल एवं अचल सम्पत्ति/आस्तियों (आस्ति) ''जैसा है जहां है", "जो है यही है आधार", "जो कुछ भी है वहीं है आधार" और "आश्रयरहित आधार" पर

ई-नीलामी के माध्यम से बेचने का इरादा रखते हैं। कॉर्पोरेट देनदार से सम्बन्धित विवरण https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज/संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि/समय 30-07-2024 को 5.00 बजे अप. से

सूचना साझा करने तथा साइट देखने की अन्तिम तिथि	11-08-2024
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	13-08-2024
ई–नीलामी की तिथि	10-08-2024
ई-नीलामी का समय : (गोइंग कंसर्न के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री) - विकल्प ए	11:00 बजे पूर्वा से 1:00 बजे अप.
ई-नीलामी का समय : (गोइंग कंसर्न के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के परिसर की स्वतन्त्र बिक्री) - विकल्प बी	1:00 बजे अप. से 3:00 बजे अप.
ई-नीलामी का समय : (कॉर्पोरेट देनदार के संयन्त्र तथा मशीनरी की स्वतंत्र बिक्री) – विकल्प सी	1:00 बजे अप. से 3:00 बजे अप.

आरक्षित मुल्य और जमा धरोहर राशि नीचे दी गई तालिका में संबंधित संपत्ति(यों) के सम्मुख है।

पता सहित आस्ति(यों)

	का विवरण	मूल्य	३९५७।	मूल्य
सं.	(गोइंग कंसर्न के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री)	u - 8		( )
(ए)	परिसमापन विनियमन के विनियमन 32(ई) के अंतर्गत गोइंग कंसर्न के रूप में कॉपोरेंट देनदार की बिक्री (देयताओं और नकदी और नकदी समकक्ष को छोड़कर) मुलुंड पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित परिसर और 18 स्थानों पर एक्स-बॉडी न्यूवे मेड के रूप में वर्णित मशीनरी और मुंबई/ठाणे में स्थित मशीनरी के साथ	8,00,00,000	80,00,000	10,00,000
(बी)	कॉर्पोरेट देनदार के परिसर की स्वतन्त्र बिक्री (यदि नीचे उलि बोली नहीं प्राप्त होती है)	लखित स्थानों में विव	nल्प सं. ए के ता	हत नीलामी हेतु कोई
	4682 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल, समृद्धि बिल्डिंग, प्रथम तल प्लॉट नं. 5, मिनवां लेआउट, सी.टी.एस. नं. 551/2, ग्राम नाहुर, मदन मालवीय रोड, मुलुंड पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र-400080 पर स्थित है।	6,50,00,000	65,00,000	10,00,000
(सी)	कॉर्पोरेट देनदार के संयन्त्र तथा मशीनरी की स्वतंत्र बिक्री (र्या हेतु कोई बोली नहीं प्राप्त होती है)	दे नीचे उल्लिखित स्थ	गानों में विकल्प सं	i. ए के तहत नीलामी
(i)	18 स्थानों पर मशीनरी, एक्स-बॉडी न्यूवे मेड (जैकेट सहित) के रूप में वर्णित	23,69,273	2,36,927	1,00,000
(ii)	4 मशीनरी, एक्स-बॉडी न्यूवे मेड (जैकेट सहित), सागर कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग नंबर ई-2, गाला नंबर 1 से 6 ओवली गांव, मिनी पंजाब होटल के सामने, लोढ़ा धाम के पास, ठाणे - नासिक हाईवे, जिला ठाणे, महाराष्ट्र-421302 पर स्थित (रांची, जमशेदपुर, सोलापुर और इंदौर से स्थानांतरित)	5,70,388	57,038	10,000

नोट : ग्रेटर बॉम्बे के सिविल कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 के अपने आदेश के माध्यम से कॉरपोरेट देनदार के पंजीकृत पते को ग्राउंड फ्लोर, मंगल सिमरन, ऑफ टर्नर रोड, 20वीं रोड बांद्रा वेस्ट, मुंबई-400050 में बदलने पर रोक लगा दी है। कृपया ध्यान दें कि तलवलकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (परिसमापन में) के लिए 16.08.2024 को दो चरणों में ई-नीलामी आयोजित की जाएगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विकल्प ए कॉपोर्रेट देनदार की बिक्री के लिए पहली नीलामी होगी। यदि पहली नीलामी विफल हो जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विकल्प बी और विकल्प सी कॉपोरेंट देनदार के परिसर की स्वतंत्र बिक्री के लिए दूसरी नीलामी होगी (यानी, विकल्प बी) और कॉपोरेंट देनदार की एक्स-बॉडी न्यूवे मेड मशीनरी की स्वतंत्र बिक्री होगी जो विभिन्न परिसरों/स्थानों पर स्थित है. जो विभिन्न मकान मालिकों के स्वामित्व में हैं (यानी विकल्प सी)। विकल्प बी और विकल्प सी के तहत उल्लिखित संपत्तियां जो ऊपर उल्लिखित स्थानों पर स्थित हैं, बोलीदाताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदी

बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी सेवा प्रदाता ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ( ऑक्शन टाइगर ) के माध्यम से की जायेगी। बिक्री https://ncltauction.auctiontiger.net और निम्नलिखित पर उपलब्ध प्रक्रिया ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों

के अधीन होगी :

1. परिसम्पत्तियों की सुची में विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों का विवरण वास्तविक आधार पर परिसमापक के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सुचना के अनसार बताया गया है। 2. परिसमापक के पास वास्तविक आधार पर जानकारी उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमापक संपत्ति की स्थिति

की सटीकता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

संभावित बोलीदाताओं को कॉपोरेंट देनदार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करने की भी सलाह दी जाती है।

कॉपोर्रेट देनदार की देनदारियों का निपटान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 53 के अनुसार किया जाएगा। यदि समापन समय के अंतिम 5 (पांच) मिनट के भीतर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो बोली लगाने का समय स्वचालित रूप से अन्य 5 (पांच) मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा, नीलामी स्वचालित रूप से विस्तारित 5 (पांच) मिनट पर बंद हो जाएगी। श्री गजेश लाभचंद जैन

> माननीय एनसीएलटी आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2022 के तहत नियुक्त पंजीकरण संख्याः IBBI/1PA-001/IP-P-01697/2019-2020/12588 एएफए वैधता: 22/09/2024 पताः सी-602, रेमी बिज कोर्ट, वीरा देसाई रोड, आजाद नगर,

तलवलकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड के परिसमापक

दिनांक: 15-07-2024 अंधेरी वेस्ट, मुंबई -400053 ईमेलः liquidation.tbvfl@gmail.com, संपर्क नंबरः +91-8451898835 स्थानः मुंबई

www.readwhere.com

# 15 फीट के पुल से नदी में गिरी कार, 2 की मौत

दैनिक नवज्योति

#### तीन दोस्तों ने कांच तोड़कर बाहर निकल बचाई जान

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर।जिले के खेरवाडा थाना क्षेत्र में ऑगे-पीछे चल रही कारें आपस में टकरा गई। पीछे से टक्कर लगने से आगे चल रही कार अनियंत्रित होकर नालाफला पलिया से करीब 15 फीट नीचे सागवाडा की नदी में गिर गई। हादसे में 2 दोस्तों की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबिक 3 दोस्तों ने गाड़ी का कांच तोडकर अपनी जान बचाई।

थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि हादसे में तिलकेश मीणा (25) और चिराग मेघवाल (24) निवासी गोविंद कॉलोनी खेरवाड़ा की मौत हो गई।तिलकेश के पिता गोविंद राम डामोर सेवानिवृत्त बीडीओ है, वहीं चिराग के

मकान की बाउण्डी तोडी

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। अंबामाता

थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दो जनों के

खिलाफ उसके मकान की बाउण्डी तोडने

का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के

निवासी अम्बामाता ओंड बस्ती ने मामला

दर्ज करवाया कि उसने 8 अक्टूबर 2009

को लीलाबाई खटीक से एक मकान खरीद

कर रजिस्टी करवाई व कब्जा प्राप्त किया।

इस मकान में वह रहा है। उसने चारदीवारी

इसी माह में बनवाई थी, जिसको 10 जलाई

ने तोड़ दी।

में पूरी तरह डूब गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। थानाधिकारी ने बताया कि जीप में सवार मनीष पुत्र कैलाश मीणा ने रिपोर्ट दी कि ये लोग दो अलग-अलग कारों से रविवार को ऋषभदेव क्षेत्र में स्थित काकन सागवाड़ा के सालंग बावजी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। आगे चल रही गाडी में तिलकेश मीणा, चिराग मेघवाल, तरुण, दिनेश और अनिल सवार थे। पिछली कार में सहदेव और मनीष और अन्य थे।इस दौरान नालाफला पुलिया के पास जीप से आगे चल रही कार को टक्कर लगी और वह बेकाबु होकर पुल से सागवाडा की नदी में गिर गई। इसमें डूबने से तिलकेश और चिराग की मौत हो गई, जबिक तरुण, अनिल और दिनेश कांच तोड़कर जैसे-तैसे बाहर निकले।

पिता प्रथम श्रेणी शिक्षक पद से

सेवानिवृत्त हुए हैं। हादसे में कार नदी

### चक्कर आकर गिरने से युवक की मृत्यू

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। सूरजपोल थाना क्षेत्र में कपड़ों की डिलीवरी के लिए जा रहे एक यवक की चक्कर आने अनुसार ख्याली लाल पुत्र पृथ्वीराज चौधरी पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार भंवरलाल (35) पुत्र बाबुलाल वसीटा निवासी स्वामीनगर पानेरियों की मादड़ी लांड़ी का काम करता था। वह रविवार शाम को अपने भांजे बाबलाल के साथ कपड़ों की डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। इस दौरान सरजपोल चौराहे से पहले अचानक उसे चक्कर आने लगे तो उसने बाइक रोक दी। बाइक रोकते ही वह मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। यह देखकर भांजे ने बड़े मामा को को अम्बालाल ओड व उदयलाल ओड फोन कर बुलाया। बेसुध पड़े भंवरलाल को चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।



#### शराब परिवहन का आरोपी एक वर्ष बाद गिरफ्तार

ब्युरो/नवज्योति, उदयपुर। जिले की टीडी थाना पलिस ने शराब परिवहन के मामले में एक साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पलिस ने बताया कि 21 अप्रेल 2023 को उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर नाकाबन्दी तोड़कर भाग रही एक फॉर्च्यूनर कार को पुलिस टीम ने रोका। उसमें से राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब के 40 कार्टून भरे थे। पुलिस ने शराब सिहत फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया। इस दौरान वाहन चालक मौका पाकर पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भाग गया। मामले में फरार चालक संजय पुत्र जयन्तिलाल बारोट निवासी चुण्डावाडा थाना बिच्छीवाडा को गिरफ्तार किया गया।

महिला के गले से सोने की चैन झपट्टी उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में इवनिंग वाँक कर रही एक महिला के

गले से बाइक सवार बदमाश सोने की चेन झपट कर ले गया।पलिस के अनसार नीरज कुमार पुत्र नवीन कुमार जैन निवासी कृष्णा विहार कॉलोनी न्यू विद्यानगर सेक्टर 4 ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी पत्नी मिचमी जैन खाना खाने के बाद 13 जुलाई को रात करीब 9.15 बजे उसके मकान के पास एआर ड्रीम अपार्टमेन्ट के पीछे गली में घूम रही थी। इसी दौरान सामने से हेलमेट पहने हुए एक अकेला युवक आया और उसकी पत्नी के गले पर झपटा मार कर गले में पहनी हुई सोने की चेन को तोड़कर ले गया।

## कंटेनर लूटने का आरोपी दो माह बाद गिरफ्तार

देबारी के निकट एक कंटेनर को रुकवाकर चालक के साथ मारपीट कर वाहन लुटने के मामले में दो माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि 18 मई को उदयसिंह पुत्र मदन सिंह निवासी ढाणी तोड़ कुच्छावा खेतड़ी ने मामला दर्ज करवाया कि वह 15 मई को सुबह 9 बजे करीब मुम्बई से गाड़ी में कम्प्रेशर भरकर मोहाली जा रहा था। 17 मई को देबारी पावर हाउस के पास रोड का काम चल रहा था, जिससे उसकी गाड़ी धीरे-धीरे चल रही थी। रात करीब 9 बजे एक लडके ने उससे कहा कि उस्ताद जी सुनो। इस पर उसने कन्टेनर से गर्दन बाहर निकालकर देखाँ कि उस लड़के ने सिर पर लोहे के के बारे में पछताछ की जा रही है।

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर।प्रतापनगर थाना पुलिस ने सिरये से मारा। उसके सिर से खून निकलने लगा। उसने कंटेनर को रोका तो तीन-चार लड़के कंटेनर में चढ़ गए और गर्दन पर हथियार लगाकर केबिन में पटक दिया। उस पर कंबल डाल दिया तथा फोन व पर्स छीन लिया। मारपीट कर उसका कंटेनर लुटकर फरार हो गए। इससे पूर्व उसे रास्ते में पटक गए। मामले में पुलिस ने पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी हैड कांस्टेबल भगवत सिंह, बाबूलाल, कांस्टेबल किरण, लोकेश रायकवाल की टीम तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने दो माह से फरार चल रहे लोकेश पत्र सन्दरलाल डांगी निवासी धनवारेट डबोक को गिरफ्तार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियार व लुटे गए माल

# लाखों रुपए लेकर भी नहीं की बहन से मिलकर जा रहे युवक पूरे माल की सप्लाई

में रुपए लेने के बाद भी 74 हजार रुपए से अधिक का क्वार्ट्ज पाउडर नहीं भेजने और धोखाधडी करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार महेंद्र कुमार पुत्र स्व. पतराम अग्रवाल निवासी आसनसोल प. हाल गारियावास रोड ने रिपोर्ट दी कि उसकी कंपनी क्वार्ट्ज पाउडर खरीदने के लिए गणपति मिनरल वेंचर प्रालि के डायरेक्टर पलाश वैश्य, अंकिता वैश्य और अशोक वैश्य से डील की थी, जिसकी भुगतान राशि 92 लाख 50 हजार रुपए उनके खाते में जमा करवाई गई थी। इसके बाद चौदह लाख पांच हजार एक सौ पचानवे की माल की नवम्बर 2023 में सप्लाई की। 8 माह बीत जाने के बाद भी कंपनी ने

उदयपुर। हिरणमगरी थाना क्षेत्र न शेष माल भेजा और ना ही राशि का भुगतान किया।

पिता-पुत्र के मोबाइल चोरी: प्रतापनगर थाने में विरेन्द्र पुत्र राजकुमार बापना निवासी परोहितों की मादडी सत्यनारायण मन्दिर ने अज्ञात के खिलाफ उसके घर में घुसकर उसका व पिता को मोबाइल चुराने का मामला दर्ज कराया। मारपीटः सविना थाने में लक्ष्य

पुत्र शंशिकांत जांगिड़ निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी सेक्टर 13 ने आशीष कुमार रायका के खिलाफ उसे रोककर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया।

**छेड़छाड़:** सुखेर थाने में 20 साल की युवती ने उससे छेड़छाड़ को लेकर रविन्द्रसिंह चौहान के खिलाफ मामला

# की दुर्घटना में मौत



ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बहन से मिलकर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यश (18) पुत्र सोहनलाल मेघवाल

निवासी मारवाड जंक्शन पाली की बहन एक कॉलेज में नर्सिंग कर रही है, जिससे मिलने के लिए वह यहां पर आया था। वह मिलने के बाद ऑनलाइन बाइक सर्विस की बाइक से स्टेशन की ओर जा रहा था। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई जिससे यश की

#### Dajaj consumer care

**BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED** CIN - L01110RJ2006PLC047173 Regd. Office: Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan Tel No. +91 294 2561631 Email Id. complianceofficer@bajajconsumer.com

Website: www.bajajconsumercare.com NOTICE OF THE 18th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting" of the Company is scheduled on Friday, August 9, 2024 at 10:30 A.M. at The Fern Residency, Plot No.1, Madhu Nursery Compound, Hiren Magri Sector 3 Near Sevashram Flyover, Udaipur 313001, Rajasthan, to transact the busines as set out in the Notice of the AGM of Company.

Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board o India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings and other applicable provisions, the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 have been sent through, electronic mod via e-mails to those Members whose e-mail ids are registered with the Company Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company and physical copies to those members whose e-mail ids are no registered with the Depository Participant(s) or RTA as on July 12, 2024 at their respective registered postal addresses vide the permitted mode. The dispatch of the Annual Reports was completed on July 15, 2024. The aforesaid documents are also hosted on the website of the Company viz. www.bajajconsumercare.com and website of the Stock Exchanges, i.e. viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of KFin Technologies Limited ("KFINTECH") at www.evoting.kfintech.com.

In case, Members wish to get a physical copy of the Annual Report of the Compar for the Financial Year 2023-24, they may send a request to the Company at 3' Floor, Building No.12, Solitaire Corporate Park, 167, Guru Hargovind Marg, Chakala, Andheri (East), Mumbai 400 093 or send an e-mail at annualreport@bajajconsumer.com by quoting their DP ID and Client ID or Folio Number and the Company will send the same free of cost.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretaria Standards on General Meetings, the Company is providing to its Members with a facility to cast their vote on all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") The Company has engaged the service of KFINTECH for providing e-voting services through e-voting platform

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being August 2, 2024, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM

The remote e-voting period commences on Monday, August 5, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and concludes on Thursday, August 8, 2024 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid da and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by KFINTECH upon expiry of the aforesaid period. Details of the process and manner of remote e voting are furnished in the said Notice.

Please read carefully the instructions and information relating to e-voting furnished in the Notice of the AGM, before exercising the vote through e

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com and also refer to the voting instructions on the KFINTECH website. However, person who is already registered on the CDSL/NSDL e-voting platform, he can use his existing User-Id and Password. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only

Pursuant to provisions of Section 107 of the Companies Act, 2013, since the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members, there shall be no voting by show of hands at the AGM. The Company is also offering facility fo voting by way of polling papers/ballot papers at the AGM for the Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting. However, Member who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to vote. If a Member cast votes by both modes i.e remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote voting shall prevail and vote cast through polling paper shall be treated as invalid. The Company has appointed Mr. S.N. Viswanathan, Practicing Company Secretary (Membership No.: A 61955; Certificate of Practice No.: 24335) failing him Ms. Malati Kumar, Practising Company Secretary, (Membership No.: Á 15508 Certificate of Practice No.: 10980), as the Scrutinizer to scrutinize the voting and

remote e-voting process in a fair and transparent manner A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on poll instead of himself. A proxy need not be a member of the Company The Proxy Form duly completed, stamped and signed should reach the Registere Office of the Company not less than 48 hours before the AGM. The details with respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in the Notice of the AGM.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.kfintech.com or address the same to Mr. PSRCH Murthy, S Manager. KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibov Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 or call on toll free no.: 1 800-309-4001 or send a request at evoting@kfintech.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer book of the Company will remain closed from Friday, August 2, 2024 to Friday, August 9, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 18th Annual General Meeting of the

Date: July 15, 2024

By order of the Board of Directors

Vivek Mishra Head-Legal & Company Secretary Membership No.: A2190

**Dajaj** GROUP



# महात्मा गाँधी अस्पताल, जयपुर ® ® श्री राम कैंसर एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेन्टर ® ®

(A UNIT OF MAHATMA GANDHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, JAIPUR.)

रीको इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर – 302022 फोन : 0141-2771777, 2771001-2-3 www.mgmch.org 😝 /mahatmagandhihospitaljaipur 🖸 /@/MahatmaGandhiHospital 🧿 /mahatmagandhihospitaljaipur/



# श्रा मजनलाल श्रमा जा

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

# श्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी

माननीय मंत्री-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में

# महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज

को "सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान" के लिए सम्मान हेतु आभार



श्री भजनलाल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान



श्री गर्जेंद्र सिंह खींवसर जी माननीय मंत्री-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,



माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्रसिंह खींवसर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभा सिंह

से पुरस्कार लेते हुए डॉ आर सी गुप्ता (मेडिकल सुपरिंटेण्डेंट) एवं वीरेन्द्र पारीक (डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स)

: निवेदक :

# डॉ एम एल स्वर्णकार

**Emeritus Chairperson** MGUMST, Jaipur



डॉ विकास चन्द्र स्वर्णकार Chairperson cum Chancellor

> कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट हार्ट एवं लंग्स ट्रांसप्लांट कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट ड्यूअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट

बोनमैरो ट्रांसप्लांट राजस्थान में सर्वाधिक लिवर ट्रांसप्लांट सर्वाधिक 2000+ किडनी ट्रांसप्लांट सभी प्रकार के ट्रांसप्लांट करने वाला

देश का 5वां मेडिकल कॉलेज

# अत्याधुनिक मल्टी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल

किडनी द्रायप्लाट

उल्लेखनीय सेवाओं के 24 वर्ष

वयस्कों एवं बच्चों की सम्पूर्ण उपचार सेवाएं एक ही स्थान पर

लिवर ट्रांसप्लांट

कैंसर रोग उपचार ● बोनमैरो ट्रांसप्लांट ● हृदय रोग हृदय शल्य चिकित्सा ● मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग ● न्यूरोसर्जरी ● यूरोलॉजी ● गुर्दा रोग
 • पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट ● जोड़ प्रत्यारोपण ● लिगामेंट सर्जरी, स्पोर्ट्स इंजरी ● बच्चों की सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं

1450 बैड्स | 550+डॉक्टर्स | 1000+ नर्सिंगकर्मी | 33 ऑपरेशन थियेटर्स | 350+ ICU बैड्स

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA योजना)व राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (RGHS) योजना के लाभार्थियों के लिए कैशलैस उपचार

राज्य व केन्द्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी व पेंशनर्स, ECHS, CGHS, ESIC, Railways, BSNL, FCI, CAPF,

सरस बीमा योजना, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष All Major Mediclaim Cos.& TPAs से उपचार हेतु अधिकृत

टोल फ्री नम्बर हैल्पलाइन 18001806002 8107677888

24 घंटे इमरजेंसी

